



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 95]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का आ 105(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 को 27/8 कि.मी. पर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को 13/8 कि.मी. पर जोड़ने वाले चेन्नई बाइपास (चरण-1) के निर्माण/ चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग जिला कांचीपुरम और तिरुवल्लूर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता का व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुन जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी ओर जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौर सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 को 27/8 कि.मी. पर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को 13/8 कि.मी. पर जोड़ने वाले भू-खंड पर चेन्नई बाइपास (चरण-1) के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/उप-विभाजन स.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कांचीपुरम	अलाधुर	अण्कापुथुर	241/1ए/ए	निजी	शुष्क	281.41

[फा स भारतरात्रा-एचक्यू/11013/2011-एलए/ नोटिफ/पीआईयू-चेन्नई]

माया प्रकाश, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2012

**S.O. 105(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction/ widening of Chennai Bypass (Phase-1), connecting NH-45 at km. 27/8 and NH-4 at km 13/8 in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of said land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer (LA), National Highways, Kancheepuram and Thiruvallur Districts, Tamil Nadu, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioners and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land for construction of Chennai Bypass (Phase-1), connecting NH-45 at km. 27/8 and NH-4 at km. 13/8 in the State of Tamil Nadu.**

Serial number	Name of the District	Name of the taluk	Name of the village	Survey/sub-division number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kancheepuram	Alanthur	Anakaputhur	241/1A1A	Private	Dry	281.41

[F.No NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif/PIU-Chennai]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.